



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अक्टूबर 1930 (शुक्र)  
(सं० पटना-471) पटना, बुधवार, 1 अक्टूबर 2008

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर 2008

सं०1/निग.को.(रा.आ.)-28/2007-3861—श्री वीरेन्द्र कुमार, सुपुत्र-स्व.राजेश्वर महतो, राजवंशीनगर, पटना, तत्कालीन उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को दिनांक 24.07.1992 को ज्योतिपुरम सहकारी गृह निर्माण समिति, खाजपुरा, पटना के अध्यक्ष श्री अमरेन्द्र प्रसाद से रुपये 5,000(पाँच हजार) रुपये घूस लेते, निगरानी दस्ते द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-032/1992 दिनांक 23.07.1992 दर्ज किया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना ने उपर्युक्त मामलों से संबंधित विशेष वाद संख्या-64/92 में दिनांक 20.12.1999 को पारित आदेश के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत श्री कुमार को दोषी मानते हुए, उन्हें तीन वर्षों का कारावास एवं रु 10,000(दस हजार) रुपये जुर्माना की सजा दी गयी। श्री कुमार के द्वारा उक्त पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील संख्या- 11/2000 दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 17.01.2000 को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया गया।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-7820 दिनांक 28.10.2003 में प्रावधान किया गया है कि अपील के लम्बित रहते हुए, आपराधिक मामले में दोषी करार दिये जाने पर, भारतीय संविधान की धारा-311(2) के तहत बर्खास्तगी आदि की कार्यवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त परिपत्र के आलोक में कदाचार से संबंधित गंभीर मामले में दोषी पाये जाने के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की

सहमति के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. सरकारी सेवक का नाम         | :— श्री वीरेन्द्र कुमार |
| 2. सरकारी सेवक की जन्म तिथि   | :— 02.02.1955           |
| 3. सरकारी सेवा धारण की तिथि   | :— 12.08.1978           |
| 4. सरकारी सेवक के पिता का नाम | :— श्री राजेश्वर महतो,  |
| 5. स्थायी पता                 | :— राजवंशीनगर, पटना।    |

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
देवकान्त दिवाकर,  
सरकार के उप सचिव  
—सह—मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 471-571+25-डी0टी0पी0।